

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 825]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2019 — अग्रहायण 11, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2019

अधिसूचना

संख्या 26/2019-राज्य कर(दर)

क्रमांक एफ-10-47/2019/वाक/पांच (110).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 11/2017-राज्य कर(दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(79) दिनांक 28 जून, 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (पग) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:—

“स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के उद्देश्य से, “बस की बॉडी बिल्डिंग” में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले किसी भी वाहन की चैसिस पर की जाने वाली बॉडी बिल्डिंग भी आएगी”

2. यह अधिसूचना 22 नवंबर, 2019 से प्रभावशील मानी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-47/2019/वाक/पांच(110).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-47/2019/वाक/पांच (110), दिनांक 25-11-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 25th November 2019

NOTIFICATION

No. 26/2019 – State Tax(Rate)

No. F-10-47 /2019/CT/V(110).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 11/2017-State Tax(Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(79) dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252 dated the 29th June, 2017, In the said notification, in the Table, against serial number 26, in column (3), in item (ic), the following Explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation- For the purposes of this entry, the term “bus body building” shall include building of body on chassis of any vehicle falling under chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.”

2. This notification shall deemed to have come into force with effect from the 22nd November, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.